



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32 | नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 7--अगस्त 13, 2004 (श्रावण 16, 1926)
No. 32 | NEW DELHI, SATURDAY, AUG. 7--AUG. 13, 2004 (SRAVANA 16, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई
सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the
Supreme Court]

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 16 जुलाई, 2004

सं० ए० 35020/1/2004-पीएमए—राष्ट्रपति जी, केन्द्र सरकार के सेवा-निवृत्त कर्मचारी श्री नरेन्द्र कुमार को दिनांक 16 जुलाई, 2004 के पूर्वानुज्ञ से लेकर अगले आदेश होने तक पुनर्नियोजन की शर्तों के अधीन अनुबंध आधार पर रु० 6500-200-10500 के वेतनमान में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्याधिकारी

दिनांक 19 जुलाई, 2004

सं० ए० 22012/1/2004-पीएमए—श्री गौतम बंनवाल, आई० एफ० एस० (1984) ने दिनांक 19 जुलाई, 2004 के पूर्वानुज्ञ से प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्य-भार छोड़ दिया है।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्याधिकारी

सं० ए-22017/3/2004-पीएमए—राष्ट्रपति जी, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय अशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव श्री डी० बालानुजन को दिनांक 16 जुलाई, 2004 के पूर्वानुज्ञ से अगले आदेश होने तक प्रधानमंत्री के निजी स्टाफ में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधानमंत्री के निजी स्टाफ में बालानुजन की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल तक तथा उनके विवेकाधीन होगी।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्याधिकारी

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून, 2004

सं० आरएस/1413//स्था०(सा०)—प्रधानमंत्री (श्री मनमोहन सिंह) के वैयक्तिक स्टाफ में विशेष कार्याधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरूप इस सचिवालय में प्रधान निजी सचिव श्री बी० के० पन्त की सेवाएं 18 जून, 2004 के अपरानुज्ञ से प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी गई हैं।

जे० जी० नेगी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई, 2004

सं० आरएस/3(i)/2004/49-कार्मिक--राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में उप सचिव श्रीमती अर्नसे मोमिन जार्ज को इस सचिवालय में 22 जुलाई, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक निदेशक के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं० 3025/88 के अन्तिम निपटान के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 जुलाई, 2004

सं० आरएस/1792/स्थापना (सां०)--प्रधान मंत्री (डा० मनमोहन सिंह) के वैयक्तिक स्टाफ में निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरूप इस सचिवालय में निदेशक श्री एस० एन० साहू की सेवाएं 26 जुलाई, 2004 के पूर्वाह्न से प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी गई हैं।

जे० जी० नेगी, अवर सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई, 2004

सं० ए-19014/4/2004-प्रशा०-1--इस सचिवालय की दिनांक 16 जुलाई, 2004 की समस्त कार्य अधिसूचना के अनुक्रम में, 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में अतिरिक्त निजी सचिव के दो पदों में से एक पद का पदनाम बदलकर उसी वेतनमान में विशेष कार्य अधिकारी कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, निविदाग केबिनेट मंत्री, श्री के० चन्द्रशेखर राव के अतिरिक्त निजी सचिव श्री टी० प्रभाकर राव का पदनाम 21 जुलाई, 2004 से विशेष कार्य अधिकारी कर दिया गया है।

ए० मोहनन, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560 094, दिनांक 19 जुलाई, 2004

सं० 3/1(1)2004-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में डॉ० एस० पट्टाभिरामन, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० जी० को वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 5-1-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(1)2004-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों की प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न

रूप में प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं०	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु०			
1.	एम० पलवेसम	प्रशासन अधिकारी	30-4-2004
2.	जी० शिवनन्दन	लेखा अधिकारी	30-4-2004

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(1)2004-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके सामने दिये गये पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं०	नाम	पद	नियुक्त की तिथि
श्री/श्रीमती/कु०			
1.	जोस पॉल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	27-02-2004
2.	बालसाहब करडेगौडा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी०	04-03-2004
3.	जी० स्मिता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी	05-03-2004
4.	डॉ० सजनी सूरेंद्रन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०डी	26-03-2004
5.	तीर्थ प्रतीम दास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	07-04-2004
6.	डॉ० के० किशोर कुमार आर०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०डी	29-04-2004
7.	दुर्गा राव मेवा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी	14-05-2004
8.	पंकज कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी	01-06-2004
9.	लीवन राजेन्द्रन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी	09-06-2004
10.	पी० शशिकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी	11-06-2004
11.	हेमन्त अरोड़ा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी	16-06-2004
12.	अतुल कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी	17-06-2004

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों को वरिष्ठ क्रय व भंडार अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 15-04-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

श्री/श्रीमती/कु०

1. जयराम अन्नाहम
2. के० सीतामहालक्ष्मी

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों एस० बी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० सी० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

श्री/श्रीमती/कु०

1. आर० रामचन्द्रन
2. के० सबीना
3. रमेश जी०
4. बी० एस० मुरुगेशन
5. एस० गोपालन
6. ए० अनिलकुमार
7. सी० पी० शंकरन
8. एम० पी० थॉमस
9. शशीन्द्र बाबु बी० एस०
10. देवराजन पिल्लै एन०
11. दामोदरन टी०

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० सी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० डी० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-1-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

श्री/श्रीमती/कु०

1. प्रसाद ओगडे
2. डी० कृष्णमूर्ति
3. कृष्ण कुमार दी० बी० आर०
4. के० श्रीनिवासन
5. जयकुमार के०
6. डॉ० शशि भूषण तिवारी
7. पी० अरुणगिरि
8. हरीश पी०

9. संजय कुमार सिंह
10. भोलानाथ बेहेरा
11. शेलविन आन्टोनी
12. पी० डी० राजप्पन पिल्लै
13. सचिन गुप्ता
14. जी० सुकुमारन

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० सी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० डी० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-1-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

श्री/श्रीमती/कु०

1. वी० अभर्णा
2. इम्तियाज अलि खान
3. डी० सुकुमारन नायर
4. बी० अब्दुल रहीमन
5. के० पी० रघुरामन
6. प्रेमभास एस०
7. विवेकानन्द बी०
8. मीरा एंजल
9. एस० शशीन्द्र प्रसाद
10. प्रभा तोमर
11. एस्सी सामुअल
12. के० एस० भासी
13. डॉ० चित्तरंजन पाणी
14. संजय कुमार साहा

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० डी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० ई० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-1-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

श्री/श्रीमती/कु०

1. आर० मारीमुत्तु
2. मोहन कुमार के०
3. कैलाश चौधरी
4. एलेक्स थॉमस
5. डॉ० बी० हरिहरनाथ
6. मुरली कृष्णन आर०
7. राजन पुथलथ

8. शीना अब्राहम
9. साबु० टी०
10. आर० सतीश कुमार
11. तारा नायर
12. विक्टर जोसेफ टी०
13. ए० विजयकुमारन नायर

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

10. एस० अकबर अली
11. जे० सुरेश बाबु
12. डॉ० सी० गौरी
13. डॉ० जिनू आर०
14. संदीप चट्टोपाध्याय
15. शीलू जास

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों—एस०डी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों—एस० ई० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-1-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

- श्री/श्रीमती/कु०
1. के० अरविन्द
 2. अनिल एस०
 3. फिनिता के० सी०
 4. के० राघवन
 5. संतोष जे० नल्लुवीटिल
 6. आर० गणेशन
 7. जी० राधाकृष्णन
 8. श्री० रामभद्रन
 9. जे० मुत्तुपाण्डियन
 20. अनि डेनियल कुरियन
 11. एन० श्रीनिवास
 12. प्रन्की के० पी०

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों—एस०ई० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों—एस० एफ० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-1-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

- श्री/श्रीमती/कु०
1. प्रशान्त कुमार गुच्छैत
 2. पी० सी० अब्राहम
 3. श्री० एम० देवासी
 4. एम० बी० राधाकृष्णन
 5. के० राधाकृष्णन
 6. जॉन विनय जोसेफ
 7. आर० राजकुमार
 8. एन० सुब्रमणियन
 9. मणी पी० आर०

सं० 3/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों—एस०एफ० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों—एस०जी० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-1-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

- श्री/श्रीमती/कु०
1. वी० के० जॉन
 2. आर० विश्वनाथन
 3. रवीन्द्र पी० वी०
 4. डॉ० पी० शशिधरन आचारी
 5. पी० बालचन्द्रन
 6. के० रामचन्द्र
 7. पी० वी० कृष्णन
 8. एन० गोपालकृष्णन
 9. एच० सोमसुन्दरम
 10. डॉ० शशिकुमार पी०
 11. डॉ० पी० के० कुन्जी कृष्णन

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों—एस०जी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों—जे० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं ।

- श्री/श्रीमती/कु०
1. के० गांधी राज
 2. के० गोविन्दराजु
 3. ए० के० मुखोपाध्याय
 4. थॉमस जॉन
 5. दौरेराज० आर
 6. साइमन के० वी०
 7. एन० रवीन्द्रन पिल्लै
 8. जे० जे० रोमे प्रेमकुमार
 9. पी० ए० कृष्ण मूर्ति
 10. थॉमस सी० बाबू

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस०जी को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-जी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2004 के पूर्वाह्न में आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

श्री/श्रीमती/कु

1. एम० सुन्दरेशन
2. के० दामोदरन
3. सी० गोपालन
4. जोसकुट्टी जोस
5. श्रीराम टंडन
6. एम० शिवसुब्रमणिय पिल्लै
7. वी० वेलायुधम
8. वी० रामचन्द्र
9. एन० जनार्दनन
10. डॉ० एम० सत्यनारायण

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-1-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
श्री/श्रीमती/कु		
1. डॉ० वी० आदिमूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	उत्कृष्ट वैज्ञानिक
2. एन० के० अग्रवाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
3. एस० रामरत्नम	—वही—	—वही—
4. एस० सेल्वराजु	—वही—	—वही—
5. पी० एन० सुब्रमणियम	—वही—	—वही—
6. रवीन्द्रनाथ जी	—वही—	—वही—
7. एस० वी० शर्मा	—वही—	—वही—

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(2)/2004-I—अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री एम० एन० नारायणन नायर, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०डी ने अपने

निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप दिनांक 30-06-2004 के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(2)/2004-I—अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिये गये पद से दिनांक 31-03-2004 के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :—

क्रमसं०	नाम	पद
	श्री/श्रीमती/कु	
1.	यू० जयरजन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई
2.	डॉ० आर० रामस्वामी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
3.	डॉ० के० एस० वी सुब्बराव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०
4.	पी० डी० राजप्पन पिल्लै	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०
5.	पी० वी० ई० वारियर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० जी०
5.	के० राजप्पन	क्रय व भण्डार अधिकारी

के एस रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(2)/2004-I : अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों ने स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु०		
1. सुरेश पोन्नन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०	02-04-2004
2. के० पलनीचेल्वन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०	02-04-2004
3. अशोक कुमार बक्शी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई०	02-04-2004
4. पी० वेलप्पन पिल्लै	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०	06-04-2004

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 3/1(2)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित

वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :

नाम	पदनाम	त्यागपत्र की तिथि
श्री/श्रीमती/कुं०		
1. रोहित जैन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी०	10-03-2004
2. जितेन्द्र बिजलानी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०डी०	10-03-2004
3. एम० देणु रेड्डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी०	31-03-2004

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2004

सं० एफ० 6 (1998)/97-प्रशासन-1 : आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 21-5-2004 के आदेश सं० 13019/86/पी० एफ० आई० ई० एस० के अनुसार योजना आयोग में निदेशक (छुट्टी पर) तथा आई० ई० एस० के एन० एफ० एस० जी० अधिकारी श्री मुनीष कुमार को दिनांक 29-02-2004 (अपराह्न) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है तथा उनकी सेवाएं उसी तिथि से आर्थिक कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं० एफ०-6(1901)/2004-प्रशासन-1 : आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 04-06-2004 के आदेश सं० 13016/2/2003-आई० ई० एस० के तहत योजना आयोग में उनकी तैनाती के परिणामस्वरूप, आई० ई० एस० के एन० एफ० एस० जी० अधिकारी श्री सी० एस० महापात्र ने दिनांक 04-06-2004 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में 14300-400-18300 रु० के वेतनमान में निदेशक का पदभार संभाल लिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2004

सं० ए-44011/4/2000-प्रशासन-1-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 9-7-2004 के अधिसूचना सं० 12016/10/एन० एफ० एस० जी०/04-05/2004-आई० एस० एस० के अनुपालन में आई० एस० एस० के जे० ए० जी० अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार दास जो योजना आयोग में उप सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 01-04-2004 से 14300-400-18300 रु० के वेतनमान में सेवा की एन० एफ० एस० जी० प्रदान की जाती है।

2. आई० एस० एस० के एन० एफ० एस० जी० में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, उनकी उप सलाहकार के पद की वैयक्तिक रूप से उन्नयन करके उन्हें निदेशक का पदनाम दिया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2004

सं० ए-12025/10/98-प्रशा० II-संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक योजना) के रूप में नियमित पदोन्नति के लिए अन्य अधिकारी की अनुशंसा तथा दिनांक 29-06-2004 (पूर्वाह्न) से अनुशंसित अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण करने की ध्यान में रखते हुए, श्रीमती प्रोमिला यादव को वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक योजना) (जिस पर वे तदर्थ आधार पर नियुक्त थीं) से दिनांक 29 जून, 2004 की पूर्वाह्न से योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक योजना) के उनके मूल पद पर 8000-275-13500/- रु० के वेतनमान में प्रस्थापित किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2004

सं० ए-43014/4/2000-प्रशा०-II-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 11-6-2004 के आदेश सं० 12015/1/2004-आईएसएस के तहत उनका स्थानांतरण और भारतीय खान ब्यूरो में सहायक निदेशक के रूप में तैनाती होने के फलस्वरूप, योजना आयोग में कार्यरत श्रीमती अंशु सिंह (भारतीय सांख्यिकी सेवा की करिष्ठ समय मान अधिकारी), अनुसंधान अधिकारी को भारतीय खान ब्यूरो में रिपोर्ट करने के लिए दिनांक 30-6-2004 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

टी० आर० मीणा, निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 1 जुलाई 2004

सं० ए-12025/13/2002-प्रशा०-II-राष्ट्रपति, श्री के० पी० सिंह, अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक योजना) को योजना आयोग में नियमित पदोन्नति आधार पर 10000-325 15200/- रु० के वेतनमान में अस्थाई रूप में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक योजना) के पद पर दिनांक 29 जून, 2004 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

टी० आर० मीणा, निदेशक (प्रशा०)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2004

सं० ए-12034/1/2004-प्रशा०-IV (वि०का०)---
राष्ट्रपति, कर्मचारी कार्य विभाग में अनुभाग अधिकारी श्री विजय कुमार को दिनांक 25-5-2004 के पूर्वाह्न से माननीय विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) के वैयक्तिक अनुभाग में अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। मंत्री के अपर निजी सचिव के पद का वेतनमान रु० 10,000-325-15,200/- है। तथापि, श्री विजय कुमार का वेतन कामिक और प्रशिक्षण विभाग के संबंधित अनुदेशों द्वारा शासित किया जाएगा। श्री विजय कुमार की यह नियुक्ति विधि और न्याय मंत्री श्री एच० आर० भारद्वाज के प्रसादपर्यन्त तथा उनके कार्यकाल तक के लिए है।

वी० एम० रत्नम, अवर सचिव

दिनांक 8 जुलाई 2004

सं० ए-12034/2/2004-प्रशा० IV (वि०का०)---राष्ट्रपति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उच्च श्रेणी लिपिक श्री पी० आर० सुब्रामणियम को रु० 6,500-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 04-06-2004 से माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (श्री के० वेंकटपति) के वैयक्तिक अनुभाग में प्रथम वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्त करते हैं। तथापि, श्री सुब्रामणियम का वेतन कामिक और प्रशिक्षण विभाग के संबंधित अनुदेशों द्वारा शासित किया जाएगा। श्री पी० आर० सुब्रामणियम की यह नियुक्ति विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री के० वेंकटपति के प्रसादपर्यन्त तथा उनके कार्यकाल तक के लिए है।

वी० एम० रत्नम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2004

सं० 32013/1/98-प्रशा०-IV (वि०का०) : इस विभाग की दिनांक 17-03-2004 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, सक्षम प्राधिकारी, निम्नलिखित निजी सचिवों की विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग में नियमित रिक्तियों के स्थान पर तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति को दिनांक 31-12-2004 तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।---

क्रम सं०	नाम और विभाग
	सर्वश्री
1.	एम० एल० चांदवानी, विधायी विभाग
2.	ए० सी० शर्मा, विधि कार्य विभाग
3.	जमीत सिंह, विधि आयोग, विधि कार्य विभाग।
4.	आर० के० शर्मा, विधि आयोग, विधि कार्य विभाग।

5. इस तदर्थ नियुक्ति से वे प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित प्रोन्नति का कोई दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उनके द्वारा की गई तदर्थ सेवा की गणना उक्त ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

यशवन्त सिंह, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 04 जुलाई 2004

सं० के० 11019/5/2004-यू० एस० II---राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री सिरियक जोसफ को केरल न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायविद् श्री नवदीप कुमार सोढ़ी की अनुपस्थिति के दौरान, 05 जुलाई, 2004 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वाहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डा० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 7 जुलाई, 2004

सं० के० 13025/3/2003-यू० एस० II (वोल्यूम II)---राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री नित्यानन्द प्रुटि को उस तारीख, जब से वह अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डा० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 12 जुलाई 2004

सं० के० 13031/1/2003-यू० एस० II---राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री अमरेश्वर सहाय को उस तारीख से, जब से वह अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डा० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2004

सं० के० 13032/3/2002-यू० एस०-II (Vol. II)---राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्रह्म सिंह वर्मा, को उस तारीख जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए उत्तरांचल उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डा० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

सं० के० 13016/4/2003-यू०एस० II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री अनिल कुमार (ii) कुमारी गीता मित्तल और (iii) श्री श्रीपती रवीन्द्रा भट्ट, को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब से वे अपना कार्य-भार ग्रहण करेंगे, सि दो वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 16 जुलाई 2004

सं० के० 13021/3/2002-यू०एस० I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (1) न्यायविद् श्री कोदंडराम नायडू भक्तवत्सल और (2) न्यायविद् श्री शशिधर भीमराव मजगागे को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख से, जब वे अपना पद-भार ग्रहण करेंगे, कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

सं० के० 13032/2/2004 यू० एस०-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री विकास श्रीधर सिरपुरकर को उस तारीख से, जब वे अपना पदभार ग्रहण करेंगे, उत्तरांचल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

सं० के० 13023/6/2004-यू० एस०-II--न्यायविद् श्री नारायण सिंह "आज़ाद" ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) के परन्तुक (क) के अनुसरण में 15 जून, 2004 (अपराह्न) से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से त्याग पत्र दे दिया है।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2004

सं० के० 11019/5/2004-यू० एस० II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायविद् श्री नगेन्द्र राय को 22 जुलाई, 2004 से पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2004

सं० I-18011/17/2003-आई पी एस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दिनेश प्रताप सिंह, आई पी एस (पंजाब : 2000) को दिनांक 4-9-2002 से भारतीय पुलिस सेवा में नियमित करते हैं।

जें० बी० कौशिश, डेस्क अधिकारी

सं० I-18011/6/2004-आई पी एस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती मीनू चौधरी, आई पी एस (ए जी एम यू : 2000) को दिनांक 04-09-2002 से भारतीय पुलिस सेवा में नियमित करते हैं।

जें० बी० कौशिश, डेस्क अधिकारी

दिनांक 27 जुलाई 2004

सं० I-18011/7/2004-आई पी एस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के बिहार और मध्य प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गयी तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में नियमित करते हैं : --

अधिकारी का नाम	नियमित होने की तारीख
(सर्व श्री)	
अमित लोधा, आई०पी०एस० (बिहार : 1998)	07-09-2000
अमृत राज, आई०पी०एस० (बिहार : 1998)	07-09-2000
रतन संजय कटियार, आई० पी०एस० (बिहार : 1998)	28-12-2000
मलोथू रामलु, आई०पी०एस० (बिहार : 1998)	25-02-2001
श्रीमती कैसी सुहिता अनुपम, आई० पी०एस० (बिहार : 1998)	10-05-2002
श्रीमती दीपिका सूरी, आई०पी० एस० (म०प्र० : 1999)	10-01-2002
गणेश कुमार, आई०पी०एस० (बिहार : 2000)	27-12-2002

जें० बी० कौशिश, डेस्क अधिकारी

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2004

सं० 14034/33/2003—रा० भा० (प्रशि०)—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के फलस्वरूप राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना में श्री पृथ्वी सिंह, सहायक निदेशक (भाषा) को हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में उप निदेशक (हिन्दी शिक्षण योजना) के पद पर रुपये 10000-325-15200/- के वेतनमान में, पदोन्नति पर, दिनांक 6 जुलाई, 2004 (अपराह्नत) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस० रमणन, अवर सचिव

सं० 14034/33/2003—रा० भा० (प्रशि०)—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के फलस्वरूप राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना में श्रीमती पुष्पा एन० सूरती, सहायक निदेशक (भाषा) को हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में उप निदेशक (हिन्दी शिक्षण योजना) के पद पर रुपये 10000-325-15200 के वेतनमान में, पदोन्नति पर दिनांक 7 जुलाई, 2004 (पूर्वाह्नत) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस० रमणन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2004

सं० 12013/3/2002-रा० भा० (का०-1)—राष्ट्रपति, सहर्ष श्री कुमार पाल शर्मा को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंगत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में दिनांक 8-6-2004 (पूर्वाह्नत) से विलय आधार पर अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) नियुक्त करते हैं।

(श्रीमती) सरोज जैसिया, अवर सचिव

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2004

सं० 2/4/2004-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री लक्ष्मी चन्द, भा० प्र० से (उ० प्र० : 69), सचिव, औद्योगिक नीति एवं
2—182 GI/04

प्रमोशन विभाग को दिनांक 1 जुलाई, 2004 के पूर्वाह्नत से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सजल मित्रा, निदेशक (प्रशासन)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2004

सं०-12026/3/2003-प्रशासन-I—राष्ट्रपति, श्रीमती अंजलि आनन्द, सहायक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रतिनियुक्ति आधार पर 6-7-2004 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 6500-200-10,500 रुपए के वेतनमान में उसी विभाग में अनुसंधान अधिकारी, समूह 'ख' के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं० 12026/3/2003-प्रशासन-I—राष्ट्रपति, श्री जवेर अहमद खान, सहायक, नागर विमानन मंत्रालय को 6-7-04 से प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए 6500-200-10,500/- रु० के वेतनमान में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अनुसंधान अधिकारी, समूह 'ख' के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2004

शुद्धि-पत्र

सं० ए-32014/2/2004-प्रशा०-I—इस विभाग की दिनांक 12 मई 2004 की समसंख्यक अधिसूचना में क्रम संख्या 11,12 और 21 में दिए गए नामों की वर्तनी गलत है, इन्हें नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया जाए :—

के लिए: "11. श्री जगदीश राज आहूजा"

पढ़ें "11. श्री जगदीश राय आहूजा"

के लिए: "12. श्रीमती प्रोमीला उन्मत्त"

पढ़ें: "12. श्रीमती प्रोमीला उम्मत्त"

के लिए: "21. श्रीमती बिमला चडा"

पढ़ें: "21. श्रीमती बिमला चड्ढा"

अथ सभी प्रविष्टियां अपरिवर्तित रहेंगी।

वी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2004

सं० 23012/4/2004-अ० भा० से०-III—सिविल सेवा परीक्षा, 1989 के आधार पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त तथा तमिलनाडु संवर्ग में आबंटित, श्री एन० धनंजयन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडु : 90) को अपना नाम बदलकर एन० धनंजयन करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा तदनुसार वे सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए श्री एन० धनंजयन के नाम से जाने जाएंगे।

जी० सी० पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2004

सं० 14012/3/2004-आ० भा० से०-III—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री जी० प्रकाश	2000	04-09-2002
2.	श्री अनिल मेषराम	2000	04-09-2002
3.	श्री रणवीर प्रसाद	2000	16-09-2002
4.	श्री संतोष के० मिश्रा	2000	04-09-2002

संगीता सिंह, निदेशक (सेवाएं)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2004

सं० 13017/38/2004 अ० भा० से०-(I)—केन्द्र सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा झारखण्ड सरकार के परामर्श से श्री मिथलेश कुमार, भा० प्र० से० (झारखण्ड : गैरराज्य सिविल सेवा : 74) की 14-11-2002 से 31-12-2002 तक की अवधि तक झारखण्ड से बिहार में अंतरसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति की बढ़ी हुई अवधि नियमित करती है।

के० के० शर्मा, डैस्क अधिकारी

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2004

सं० 02/पी एफ/2004—राष्ट्रपति, श्री के० ससीधरन नायर को 24 जून, 2004 से विदेश राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) का सहायक निजी सचिव नियुक्त करते हैं। विदेश राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) के सहायक निजी सचिव के रूप में श्री के० ससीधरन नायर की नियुक्ति विदेश राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) के विधेकाधीन होगी और उनकी कार्यावधि के साथ समाप्त हो जाएगी।

2. श्री के० ससीधरन नायर ने 24 जून 2004 को पूर्वाह्न में विदेश राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) के कार्यालय में सहायक निजी सचिव का कार्यभार संभाल लिया।

एस० सी० चावला, प्रशासनिक अधिकारी (पी एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2004

सं० /2004 (फा सं० ए० 19013/4/2004-प्रशा० 1क)—संवर्ग प्रशासन अनुभाग, व्यय विभाग के दिनांक 18 जून 2004 के का० जा० सं० ए० 32022/5/2003(1) के अनुसरण में श्री एम० एम० अहूजा को दिनांक 14-6-2004 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव के रूप में राजस्व विभाग के स्टाफ संख्या में शामिल किया जाता है।

आर० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2004

सं० 49 (फा सं० ए० 50/29/2004-प्रशा०-1)—इस विभाग की दिनांक 5-12-2001 की अधिसूचना सं० 87, दिनांक 6-3-2002 की अधिसूचना सं० 29, दिनांक 29-8-2002 की अधिसूचना सं० 60, दिनांक 12-11-2002 की अधिसूचना सं० 83, दिनांक 18-11-2002 की अधिसूचना सं० 85, दिनांक 18-11-2002 की अधिसूचना सं० 86, दिनांक 12-9-2003 की अधिसूचना सं० 82, दिनांक 11-12-2003 की अधिसूचना सं० 105, और दिनांक 30-4-2004 की अधिसूचना सं० 24 के क्रम में और कार्यालय एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-3-2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/2/2004-सी एस-II के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित चार सहायकों की राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति को दिनांक 01-04-2004 से और अगले आदेशों तक आगे बढ़ाते हैं :-

1. श्री ए० के० शर्मा
2. श्री आर० पी० तिवारी
3. श्री एबरन सिंह
4. श्री एम० एल० लाम्बा

उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति उन्हें नियमित पदोन्नति का कोई दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी और अल्पावधि आधार पर उनके द्वारा की गई सेवा अगले उच्च ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएगी।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

सं० 50 (फा० सं० 50/29/2004-प्रशा०-1) — इस विभाग की दिनांक 5-12-2001 की अधिसूचना सं० 87, दिनांक 6-3-2002 की अधिसूचना सं० 29, दिनांक 29-8-2002 की अधिसूचना सं० 60, दिनांक 12-11-2002 की अधिसूचना सं० 83, दिनांक 18-11-2002 की अधिसूचना सं० 85, दिनांक 18-11-2002 की अधिसूचना सं० 86, दिनांक 12-9-2003 की अधिसूचना सं० 82, दिनांक 11-12-2003 की अधिसूचना सं० 105, और दिनांक 30-4-2004 की अधिसूचना सं० 24 के क्रम में और कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-3-2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/2/2004-सी एस-II के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के नियमित सहायक श्री मनोज कुमार निर्भीक की राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 01-04-2004 से 13-6-2004 (अवकाश) आगे बढ़ाते हैं।

2. श्री मनोज कुमार निर्भीक की तदर्थ पदोन्नति उनको नियमित पदोन्नति का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी और अल्पावधि आधार पर उनके द्वारा की गई सेवा की गणना अगले उच्च ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए नहीं की जाएगी।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

दिनांक 16 जुलाई 2004

सं० 51 (फा० सं० ए० 19014/7/2003-प्रशा०-I) — इस विभाग की दिनांक 30-12-2003 की अधिसूचना सं० 107/2004 के क्रम में और कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-03-2004 के का० ज्ञा० सं० 4/2/2004-सी एस-II और व्यय विभाग के दिनांक 07-07-2004 के का० ज्ञा० सं० 11017/1/2004-सी ए एस के अनुपालन में, भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (के० सं० से०) के वित्त संवर्ग के नियमित सहायक श्री कृष्ण गोपाल की राजस्व विभाग में सं० 6500-200-10500/- के वेतनमान में के० सं० से० के अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 23-6-2004 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक आगे बढ़ाते हैं।

उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का कोई अधिकार नहीं देती।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

मुद्रा तथा सिक्का

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2004

सं० 4/18/1996-सिक्का-1 (एसपीएम) — राष्ट्रपति, मै० भारत गोल्ड माइन्स लि० के श्री पी०एम०एस० प्रसाद राव, नियंत्रक (भंडार तथा मालसूची) की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि करार शामिल है) आधार पर प्रतिभूति पेपर मिल, हौसंगाबाद में दिनांक 4-7-2001 के (पूर्वाह्न) से दिनांक 12-12-2002 (अवकाश) (प्रतिनियुक्ति समाप्ति तिथि) तक [3700-5000 रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में] प्रबंधक (सामग्री) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी० के० शर्मा, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2004

सं० 23/2004 (ए-19011/14/2004-ई-1) — राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती अशा स्वरूप, आई०ए०एस० (एचपी : 73) को 19 जुलाई 2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों के होने तक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस०के०तुली, उप सचिव

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2004

सं० ए-22012/2/2003-आ० सं० (प्रशा० 1) — राष्ट्रपति भारतीय सांख्यिकी सेवा के कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी, श्री कैलाश जी०शर्मा को दिनांक 21-7-2004 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक इस कार्यालय में सहायक निदेशक (वेतनमान रुपये 8000-13500) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी०एस० नेगी, अपर आर्थिक सलाहकार

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2004

सं० 2(10)/2001-स्थापना — राष्ट्रपति, वर्ष 2001 हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अनुभाग अधिकारी के ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता) में सम्मिलित होने पर और इस्पात मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित होने पर संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में सहायक और समान संवर्ग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे श्री संदीप कुमार को दिनांक 1-7-2004 (पूर्वाह्न) से इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में अग्रिम आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

सं० 2(10)/2001-स्था०-—राष्ट्रपति, वर्ष 2001 हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अनुभाग अधिकारी के ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता) में सम्मिलित होने पर और इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु नामांकित किए जाने पर शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में सहायक और समान संवर्ग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे श्री डी० एस० यादव को 1-7-2004 (पूर्वाह्न) से इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में अग्रिम आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

दिनांक 5 जुलाई 2004

सं० 2(14)/2003-स्था०-1—राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय की दिनांक 12 जनवरी, 2004 की सभसंख्यक अधिसूचना के क्रम में इस्पात मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा) के रूप में श्री बी० एस० कौशिक की तदर्थ नियुक्ति को 1-7-2004 से 31-12-2004 तक अगले छः माह की अवधि के लिए अथवा रिक्ति को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, तक बढ़ाते हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2004

सं० 2(8)/2004-स्था०-1—इस्पात मंत्रालय की आधिकारिक सलाहकार, डा० एस० रोहिणी का सलाहकार के पद पर डी सी (एसएसआई) विभाग में स्थानांतरण होने पर 7-7-2004 से उन्हें कार्यमुक्त किया जाता है। उनकी सेवाएं उसी तारीख से डी सी (एसएसआई) को सौंपी जाती हैं।

अनीता प्रवीण, निदेशक

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

(वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जुलाई 2004

सं० ए-20011/1/2004-स्था० 1—राष्ट्रपति, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय में श्री बी० एस० खटवकर, रसायनज्ञ को उसी सगठन में 14-7-04 से नियमित आधार पर विकास अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) अधिकारी के रूप में 6500-200-10500 रु० के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

पी० के० सरदार, निदेशक (प्रशासन)

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 1 जुलाई 2004

फाइल सं० ए-32019/1/2004-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, श्री विमल कुमार वरुण, वैज्ञानिक 'डी' को, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 14300-400-18300 रु० के वेतनमान में, संशोधित नमनोय पूरक स्कीम (एफओएस) के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने पदोन्नति होने पर 01-07-2004 से वैज्ञानिक 'ई' के पद पर नियुक्त करते हैं।

गुरमीत सिंह, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 22 अप्रैल 2004

सं० 12026/1/2002-आईएफएम-1 (.)—राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के 1984 बैच के अधिकारी श्री बी० आर० शर्मा को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में 12 मार्च 2004 पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक वन संरक्षक मध्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० एल० पराशर, अवर सचिव

दिनांक 17 जून 2004

सं० ए-12026/7/2002-आईएफएम-1 (पार्ट)—राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के उत्तर क्षेत्रीय संवर्ग के 1994 बैच के अधिकारी श्री राजकुमार बाजपेयी, को भारतीय वन सर्वेक्षण में उप वन संरक्षक स्तर पर अपराह्न 21 मई, 2004 से चार वर्षों या अगले आदेश होने तक उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० एल० पराशर, अवर सचिव

दिनांक 30 जून 2004

सं० ए-19011/1/2004-सा० व० सेव०-I (.)—पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अवर वन महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत भारतीय वन सेवा के एजोएनूटी संवर्ग के 1969 बैच के अधिकारी श्री एस एस पटनायक अधिवर्षित की आयु होने पर अपराह्न 30 जून, 2004 को सरकारी सेवा से निवृत्त होंगे।

एम० एल० पराशर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2002

सं० ए-38011/3/2001-सी० एवं ए-38011-1—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कार्यरत मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन०एफ०एस०जी०) के पदधारी, केन्द्रीय स्वास्थ्य

सेवा के नियमित संवर्ग के डा० एन० जे० कार ने अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप 30 जून, 2002 की अपराह्न से पद का कार्यभार त्याग दिया।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 जुलाई 2004

सं० ए० 38011/1/2004-सी० एच० एस०-I—अधिवर्षितावय प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डा० ए० सी० मिश्रा ने दिनांक 31-1-2004 (अपराह्न) से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 जुलाई 2004

सं० ए० 12025/5/2003-सी० एच० एस०-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग को सिफारिशों पर, डा० संदीप कुमार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II (बाल रोग चिकित्सा) के पद पर परिवर्षिता पर नियुक्त करते हैं और उन्हें 10 दिसम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लखनऊ में 10,000-325-15200 रु० के वेतनमान में तैनात करते हैं।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2004

सं० ए-19012/8/2004-ईए I—राष्ट्रपति, भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी श्री एम० सी० आर्या को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 14 मई, 2004 की पूर्वाह्न से 8,000-13500 रु० के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2004

सं० 12026/5/2001-स्था० 1/स्था० 5—राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग में नियमित सहायक आयुक्त (आई० एन० एम०) श्री धर्मपाल को उपायुक्त (आई० एन० एम०) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि 10-5-2004 से आगे 6 माह के लिए या आगामी आदेशों तक, इसमें जो पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उनको नियमित रूप से नियुक्ति पाने का कोई अधिकार मिल गया है।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 जुलाई 2004

सं० ए०-12011/3/2004-पं० रा०—राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती सुधा पिल्लई, आई० ए० एस० (केरल : 72) को नए सृजित पंचायती राज मंत्रालय में दिनांक 20-7-2004 के अपराह्न से अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एच० सी० दवेजा, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2004

मि० सं० 22-20/98-डिस्क (भा० खे० प्रा०)—प्रो० विजय कुमार महोत्रा द्वारा अखिल भारतीय खेल परिषद्, नई दिल्ली के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

जरनैल सिंह, अवर सचिव,

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 जुलाई 2004

सं० ए-39013/1/1996-प्रशा० I—महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा एन० आई० सी०-अरुणाचल प्रदेश राज्य एकक, ईटानगर में कार्यरत श्री बीरालाल डोली, कर्मचारी कोड सं० 2719 को, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "एस० बी०" के पद से त्यागपत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1996 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, उप निदेशक (प्रशा०)

सं० ए-39013/1/1994-प्रशा० I—महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा एन० आई० सी०-पुणे में कार्यरत श्री जी० बी० प्रसाद, कर्मचारी कोड सं० 3079, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "एस० बी०" के पद से त्यागपत्र दिनांक 20 जून, 1994 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, उप निदेशक (प्रशा०)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 जुलाई 2004

सं० 4700/एन आई सी/2004-प्रशा० II— राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री अश्वनी के० एस० दयाल (कर्मचारी कोड सं० 4700) का वैज्ञानिक-‘बी’ के पद से त्यागपत्र दिनांक 20 जुलाई, 2004 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी० एस० पिल्लै, उप निदेशक (प्रशा०-II)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2004

सं० 95/स्था० (राज० भ) I/4/1—रेलवे बोर्ड की दिनांक 13-8-98 की अधिसूचना सं० 95/स्था० (राज० भ) I/4/1 में उल्लिखित श्री संथिल कुमार आर० के नाम के सामने उल्लिखित अन्तिम शब्द को हटा दिया जाये।

ममता कण्डवाल,
उप निदेशक, स्था० (जी आर) (रेलवे बोर्ड)

दिनांक 22 जुलाई 2004

शुद्धि पत्र

सं० 2002/स्था० (राज० भ) I/10/1—रेलवे बोर्ड की दिनांक 19-1-2004 की अधिसूचना सं० 2002/स्था० (राज० भ) I/10/1 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों के नाम को हटा दिया जाये :—

सर्वश्री/कु०

1. असावा मनोज राजगोपाल
2. श्रीशैल कालजे
3. रविन्द्र प्रताप सिंह
4. लविदय जोधन लाल

ममता कण्डवाल, उप निदेशक,
स्था० (जी० आर०) रेलवे बोर्ड

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2004

सं० ए-12023/2/2004-स्था०-I—राष्ट्रपति, श्री कपिल मोहन, भा० प्र० से० (कर्नाटक : 90) को दिनांक 21-6-2004 (पूर्वाह्न) से माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (श्री के० एच० मुनियप्पा) के निजी सचिव के पद पर सह अव-

सानी आधार पर पांच वर्ष तक की अवधि के लिए अथवा उनके द्वारा मंत्री के निजी सचिव के पद का कार्यभार छोड़ने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. श्री कपिल मोहन, भा० प्र० से० (कर्नाटक : 90) की सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री के निजी सचिव के पद पर नियुक्ति दिनांक 30-6-2004 तक उप सचिव के स्तर की होगी और दिनांक 1-7-2004 से मंत्री के निजी सचिव के पद पर कार्य तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक के स्तर तक की होगी।

डॉ० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

दिनांक 6 जुलाई 2004

सं० ए-12026/2/2004-स्था०-I—राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के सी एस एस संवर्ग के निजी सचिव श्री सी०जी० पिल्लै को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 17 जून 2004 (पूर्वाह्न) से 30 जून 2004 तक अथवा पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर 10,000-325-15,200/र० के वेतनमान में नियुक्ति करते हैं।

डॉ० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

दिनांक 12 जुलाई 2004

सं० ए-12022/1/2004-स्था०-I—राष्ट्रपति, श्री धर्मेन्द्र कुमार, भा० प्र० से० (हरियाणा : 68) को दिनांक 1-7-2004 (पूर्वाह्न) से सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पद पर नियुक्त करते हैं।

डॉ० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

दिनांक 20 जुलाई 2004

सं० ए-11019/1/2003-स्था० 1—राष्ट्रपति, निम्नलिखित सांख्यिकीय जांचकर्ता ग्रेड-2 को 6500-200-10500 रुपए के वेतनमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में उनके नाम के सामने दी गई तारीख से नियुक्त करते हैं—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री ओम प्रकाश भारद्वाज	1-7-2004 (पूर्वाह्न)
2.	श्री सुख बीर त्यागो	1-7-2004 (पूर्वाह्न)

डॉ० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2004

सं० एल एच-21012/1/2004-एस एल-राष्ट्रपति, श्री पी० पी० सिन्हा, उप निदेशक (क्षेत्रीय), को निदेशक (इलेक्ट्रॉनिक्स) के पद पर, 12,000-375-16,500 रु० के वेतनमान में, दीपस्तंभ एवं दीपपोत महानिदेशालय में 23 जून, 2004 पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, पदोन्नत करते हैं।
वी० पी० राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2004

सं० ए-12025/3/98-स्था०-राष्ट्रपति, श्री पी० रामचन्द्रन नक्शानवीश ग्रेड-I, अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह-निर्माण कार्य की, पोत-परिवहन-मंत्रालय में, 6500-200-10,500 रु० के वेतनमान में, सहायक निदेशक (सिविल) के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि, 17-07-2004 से 16-07-2005 तक पाँचवें वर्ष तक, अर्थात् प्रतिनियुक्ति की 03 वर्ष की सामान्य अवधि से अधिक, दूसरे वर्ष तक अथवा अगले आदेश तक में से जो भी पहले हो, तब तक, बढ़ा देते हैं। श्री पी० रामचन्द्रन सहायक निदेशक (सिविल) उपर्युक्त अवधि के दौरान कोई प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी भत्ता) प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

उपर्युक्त प्रतिनियुक्ति की शर्तें, कामिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 05-01-1994 के कार्यालय ज्ञापन सं० 2/29/97-स्थापना (वेतन-) के अनुसार नियंत्रित की जाएगी।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

दिनांक 19 जुलाई 2004

सं० ए-20011/7/2001-स्था०-राष्ट्रपति, श्री हरी निवास एवं श्री डी० के० मोहन्ता, सीएसएस के नियमित सहायकों को 6500-200-10500 रु० के वेतनमान में दिनांक 25-3-2004 से अगले आदेशों तक पोत परिवहन मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2004

सं० 18/2004-मि०सं०ए०-38012/1/2004-प्रशा-I-अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री वी० मुथुकेलथुथम, जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी

(समूह-क) सेवा में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 जून, 2004 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विकास चन्द्र काजला, अवर सचिव

सं० 19/2004-मि०सं०ए०-38012/1/2004-प्रशा०-I-अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री के० के० भट्टाचार्य-II, जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 जून 2004 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विकास चन्द्र काजला, अवर सचिव

सं० 20/2004-मि० सं० ए-38012/1/2004-प्रशा० एक-अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री एस० दसारी, जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 जून, 2004 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विकास चन्द्र काजला, अवर सचिव

सं० 21/2004-मि० सं० ए-38012/1/2004-प्रशा० एक-अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री एम० एस० मनोज, जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 जून, 2004 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विकास चन्द्र काजला, अवर सचिव

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 जुलाई 2004

सं० 1/4/04-प्रशासन-I-राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 97) के श्री आशीष शर्मा को दिनांक 14-7-2004 (पूर्वाह्न) से राज्यमंत्री (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत) (स्वतंत्र प्रभार), श्री विलास मुत्तेमवार के निजी सचिव के रूप में, अवर सचिव के स्तर पर, वर्तमान राज्य मंत्री (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत) (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव के रूप में कार्य करने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे० मजूमदार, अवर सचिव

जल ससाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2004

सं० 17/7/2004-बे०प्र०/458—केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा सुप्रीम कोर्ट के श्री मनोहर लाल, वैयक्तिक सहायक की कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में मुख्य निजी सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर रु० 10000-325-15200/- के वेतनमान में दिनांक 1-07-2004-पूर्वाह्न से एक साल की अवधि या न्यायाधिकरण के जीवनकाल तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति के नियम एवं शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित दिनांक 05-01-94 के कार्यालय ज्ञापन सं०-2/29/91-स्था०-वे-II के अनुसार नियमित की जाएगी।

बी० पी० पाण्डेय, उपायुक्त (बे०प्र०)

सं० 1/4/2004-बे०प्र०/453—केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा रक्षा मंत्रालय के श्री पी० सिवारामन, निजी सचिव की कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में मुख्य निजी सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर रु० 10000-325-15200/- के वेतनमान में दिनांक 25-06-2004-पूर्वाह्न से एक साल की अवधि या न्यायाधिकरण के जीवनकाल तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति के नियम एवं शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित दिनांक 05-01-94 के कार्यालय ज्ञापन सं० 2/29/91-स्था०-वे०-II के अनुसार नियमित की जाएगी।

बी० पी० पाण्डेय, उपायुक्त (बे०प्र०)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2004

सं० 14/2004, फाइल सं० 25/2(8)/04-स्थापना-एक—संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2002 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री चोकी विजय को दिनांक 1-7-2004

पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के पद पर रु० 8000-13500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. श्री चोकी विजय कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सं० 13/2004, फाइल सं० 25/2(21)/04-स्थापना-एक—संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2002 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री नरेन्द्र कुमार सिंह को दिनांक 30-6-04 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (मैकेनिकल) के पद पर रु० 8000—13500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2004

सं० ए-12023/2/2003-स्टे०—राष्ट्रपति सहायक नियंत्रक (लेखन सामग्री) श्री हरमोपाल को दिनांक 15-6-2004 से अगले आदेश तक भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता में उपनिर्देशक (प्रशासन) के पद पर स्थापनापत्र आधार पर नियुक्त करते हैं।

एस० पी० गुप्ता, उप सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 16th July 2004

No. A. 35020/1/2004-PMA.—The President is pleased to appoint Shri Narendra Kumar, a retired Central Government employee as Private Secretary in the National Advisory Council in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on contract basis on re-employment terms with effect from the forenoon of 16th July, 2004 until further orders.

ROHIT KHERA, Officer on Special Duty

The 19th July 2004

No. A. 22012/1/2004-PMA.—Shri Gautam Bambawale, IFS (1984) has relinquished the charge of the post of Director in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 19th July 2004.

ROHIT KHERA, Officer on Special Duty

No. A. 22017/3/2004-PMA.—The President is pleased to appoint Shri D. Balanujan, a Principal Private Secretary of CSSS cadre of Ministry of Home Affairs as Principal Private Secretary on the personal staff of Prime Minister, with effect from the forenoon of 16th July, 2004 until further orders.

2. The appointment of Shri Balanujan on the personal staff of Prime Minister is co-terminous with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

ROHIT KHERA, Officer on Special Duty

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 18th June 2004

No. RS/1413/Estt.(G).—Consequent upon his appointment as Director in the personal staff of the Prime Minister (Dr. Manmohan Singh), the services of Shri B.K. Pant, Principal Private Secretary in this Secretariat have been placed at the disposal of the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 18th June 2004.

J. G. NEGI, Under Secy.

New Delhi-110001, the 23rd July 2004

No. RS/3(i)/2004/49-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Agnes Momin George, Deputy Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Director in that Secretariat, with effect from the forenoon of 22nd July, 2004, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 26th July 2004

No. RS/1792/Estt.(G).—Consequent upon his appointment as Director in the personal staff of the Prime Minister (Dr. Manmohan Singh), the services of Shri S.N. Sahu, Director in this Secretariat have been placed at the disposal of the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 26th July 2004.

J.G. NEGI, Under Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 23rd July 2004

No. A-19014/4/2004-Ad.I.—In continuation of this Secretariat's Notification of even number dated 16th July, 2004, consequent upon re-designation of one of the two posts of Additional Private Secretary in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- as Officer on Special Duty (OSD) in the same pay scale, Shri T. Prabhakara Rao, Additional Private Secretary to Shri K. Chandra Shekhar Rao, Cabinet Minister without Portfolio has been re-designated as Officer on Special Duty (OSD) with effect from 21st July, 2004.

A. MOHANAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 19th July 2004

No. 3/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion Dr. S. Pattabiraman, Scientist/Engineer-SG as Scientist/Engineer-G in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 05.01.2004 and until further orders.

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(1)2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name	Post to which Promoted	Date of Promotion
	Shri/Smt/Kum		
1.	M. Palavesam	Admn. Officer	30.04.2004
2.	G. Sivanandan	Accounts Officer	30.04.2004

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons to the posts mentioned against each in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Post appointed	Date of appointment
1.	Jose Paul	Scientist/Engineer-SC	27.02.2004
2.	Balasab Kardegouda	Scientist/Engineer-SC	04.03.2004
3.	G. Smitha	Scientist/Engineer-SC	05.03.2004
4.	Dr. Sajani Surendran	Scientist/Engineer-SD	26.03.2004
5.	Tirtha Pratim Das	Scientist/Engineer-SC	07.04.2004
6.	Dr. K. Kishore Kumar R.	Scientist/Engineer-SD	29.04.2004
7.	Durga Rao Meka	Scientist/Engineer-SC	14.05.2004
8.	Pankaj Kumar	Scientist/Engineer-SC	01.06.2004
9.	Leevan Rajendran	Scientist/Engineer-SC	09.06.2004
10.	P. Sasikumar	Scientist/Engineer-SC	11.06.2004
11.	Hemant Aroa	Scientist/Engineer-SC	16.06.2004
12.	Atul Kumar	Scientist/Engineer-SC	17.06.2004

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers as Sr. Purchase & Stores Officer in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 15.04.2004 and until further orders:—

Shri/Smt./Kum.

1. Jayaraj Abraham
2. K.Sitamanalakshmi

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SB as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2004 and until further orders:—

Shri/Smt./Kum.

1. R. Ramachandran
2. K. Sabeena
3. Ramesh G.
4. V.S. Murugesan
5. S. Gopalan
6. A. Anilkumar
7. C.P. Sankaran

8. M.P. Thomas
9. Saseendra Babu V.S.
10. Devarajan Pillai N.
11. Damodaran T.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SC as Scientists/Engineers-SD in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2004 and until further orders:—

Shri/Smt./Kum.

1. Prasad Ogde
2. D. Krishnamurthy
3. Krishna Kumar V.V.R.
4. K. Srinivasan
5. Jayakumar K.
6. Dr. Shashi Bhusan Tiwari
7. P. Arunagiri
8. Harish P.
9. Sanjay Kumar Singh
10. Bholanath Behera
11. Shelbin Antony
12. P.D. Rajappan Pillai
13. Sachin Gupta
14. G. Sukumaran

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SC as Scientists/Engineers-SD in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2004 and until further orders:—

Shri/Smt./Kum.

1. V. Abarna
2. Imtiaz Ali Khan
3. D. Sukumaran Nair
4. B. Abdul Rahiman
5. K.P. Raghuraman
6. Prembhas S.
7. Vivekanand. V.
8. Meera Angel

9. S. Saseendra Prasad
10. Prabha Tomar
11. Essy Samuel
12. K.S. Bhasi
13. Dr. Chitaranjan Pany
14. Sanjoy Kumar Saha

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SD as Scientists/Engineers-SE in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2004 and until further orders:—

Shri/Smt./Kum.

1. R. Marimuthu
2. Mohanakumar K.
3. Kailash Chaudhary
4. Alex Thomas
5. Dr. B. Hariharanath
6. Muraleekrishnan R.
7. Rajan Puthalath
8. Sheena Abraham
9. Sabu T.
10. R. Sateesh Kumar
11. Thara Nair
12. Victor Joseph T.
13. S. Vijayakumaran Nair

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SD as Scientists/Engineers-SE in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2004 and until further orders:—

Shri/Smt./Kum.

1. K. Aravind
2. Anil S.
3. Finitha K.C.
4. K. Raghavan
5. Santhosh J. Nalluveetil
6. R. Ganesan

7. G. Radhakrishnan
8. B.Ramabhadran
9. J. Muthupandian
10. Ani Daniel Kurien
11. N. Sreenivas
12. Thanki K.P.

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SE as Scientists/Engineers-SF in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2004 and until further orders:—

Shri/Smt./Kum.

1. Prasanta Kumar Guchhait
2. P.C. Abraham
3. V.M. Devassy
4. M.B. Radhakrishnan
5. K. Radhakrishnan
6. John Bnoy Joseph
7. R. Rajkumar
8. N. Subramanian
9. Mani P.K.
10. S. Akbar Ali
11. J. Suresh Babu
12. L. J. G.
13. Dr. Jeenu
14. Sandip Chattopadhyay
15. Sheelu Jose

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SF as Scientists/Engineers-SG in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2004 and until further orders:—

Shri/Smt./Kum.

1. V.K. John
2. R. Viswanathan
3. Ravindran P.V.
4. Dr. P. Sasidharan Achary
5. P. Balachandran

6. K. Ramachandra
7. P.V. Krishnan
8. N. Gopalakrishnan
9. H. Somasundaram
10. Dr. Sasikumar P.
11. Dr. P.K. Kunhikrishnan

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SG as Scientists/Engineers-G in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2004 and until further orders:—

Shri/Smt./Kum.

1. K. Gandhiraj
2. K. Govindaraju
3. A.K. Mukhopadhyay
4. Thomas John
5. Dorairaj R.
6. Simon K.V.
7. N. Raveendran Pillai
8. J. Jerome Premkumar
9. P.A. Krishna Moorthy
10. Thomas C. Babu

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SG as Scientists/Engineers-G in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2004 and until further orders:—

Shri/Smt./Kum.

1. M. Sundaresan
2. K. Damodaran
3. C. Gopalan
4. Josekutty Jose
5. Sriram Tandon
6. M. Sivasubramonia Pillai
7. B. Velayudham
8. V. Ramachandra
9. N. Janardhanan
10. Dr. M. Satyanarayana

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2004 and until further orders:—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Dr. V. Adimurthy	Scientist/Engineer-H	Outstanding Scientist
2.	N.K. Agarwal	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
3.	S. Ramaratnam	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
4.	S. Selvaraju	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
5.	P.N. Subramanian	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
6.	Ravindranath G.	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
7.	S. V. Sharma	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(2)/2004-I.—Consequent on attaining the age of superannuation Shri M.N. Narayanan Nair, Scientist/Engineer-SD in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 30.06.2004.

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(2)/2004-I.—Consequent on attaining the age of superannuation the following Officers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the 31.03.2004:—

Sl. No.	Name	Post
	Shri/Smt./Kum.	
1.	U. Jayarajan	Scientist/Engineer-SE
2.	Dr. R. Ramaswamy	Scientist/Engineer-G
3.	Dr. K.S.V. Subbarao	Scientist/Engineer-SF
4.	P.D. Rajappan Pillai	Scientist/Engineer-SD
5.	P.V.E. Warriar	Scientist/Engineer-SG
6.	K. Rajappan	Purchase & Stores Officer

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(2)/2004-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :

Sl. No.	Name	Post	Date of Relief
	Shri/Smt./Kum		
1.	Suresh Ponnann	Scientist/Engineer-SF	02-04-04
2.	K. Palanichelvan	Scientist/Engineer-SF	02-04-04
3.	Ashok Kumar Bakshi	Scientist/Engineer-SF	02-04-04
4.	P. Velappan Pillai	Scientist/Engineer-SC	06-04-04

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(2)/2004-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :

Sl. No.	Name	Designation	Date of Resignation
	Shri/Smt./Kum		
1.	Rohit Jain	Scientist/Engineer-SC	10.03.2004
2.	Jitendra Bijlani	Scientist/Engineer-SD	10.03.2004
3.	M. Venugopal Reddy	Scientist/Engineer-SC	31.03.2004

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 9th June 2004

No. F.6(1698)/98-Admn.I.—In view of Department of Economic Affairs' Order No. 13019/86/PF-IES dated 21.5.2004, Shri Munish Kumar, NFSG officer of IES and Director (on leave), Planning Commission is deemed to have been relieved from the Planning Commission w.e.f. 29.2.2004 (AN) and his services stand placed at the disposal of Department of Economic Affairs w.e.f. that date.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

No. F.6(1901)/2004-Adm.I.—Consequent on his posting in the Planning Commission vide Deptt. Of Economic Affairs' Order No. 13016/2/2003-IES dated 4.6.2004, Shri C.S. Mohapatra, NFSG officer of IES has assumed charge

as Director in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 w.e.f. 4.6.2004 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 21st July 2004

No. A-44011/4/2000-Adm.I.—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Notification No. 12016/10/NFSG/04-05-2004-ISS dated 9.7.2004, Shri Surendra Kumar Das, JAG officer of ISS, working as Deputy Adviser in the Planning Commission has been granted Non-Functional Selection Grade of the Service in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 with effect from 1.4.2004.

2. Consequent on being placed in the NFSG of ISS, he has been designated as Director by upgrading the post of Deputy Adviser as personal to him.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 22nd July, 2004

No. A-12025/10/98-Adm.II.—In view of the recommendation by UPSC of another officer for regular promotion as SRO (Educational Planning) and assumption of charge by the recommended officer w.e.f. 29.6.2004 (FN), Smt. Promila Yadava is reverted from the post of Senior Research Officer (Educational Planning) (which was held by her on ad-hoc basis) to her substantive post of Research Officer (Educational Planning) (which was held by her on ad-hoc basis) to her substantive post of Research Officer (Educational Planning) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 w.e.f. the forenoon of 29th June, 2004.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 30th June 2004

No. A-43014/4/2000-Admn.II.—Consequent upon her transfer and posting as Assistant Director in the Indian Bureau of Mines vide Ministry of Statistics and Programme Implementation's Order No. 12015/1/2004-ISS, dated 11.06.2004, Smt. Anshu Singh (Junior Time Scale Officer of Indian Statistical Service), Research Officer, Planning Commission is relieved w.e.f. 30.06.2004 (AN) to report to the Indian Bureau of Mines.

T.R. MEENA, Director (Admn.)

The 1st July 2004

No. A-12025/13/2002-Adm.II.—The President is pleased to appoint Shri K.P. Singh, Research Officer (Educational Planning) to the post of Senior Research Officer (Educational Planning) in the Planning Commission in a temporary capacity on regular promotion basis in the pay scale of Rs.

10000-325-15200, with effect from the forenoon of 29th June, 2004 and until further orders.

T.R. MEENA, Director (Admn.)

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 7th July 2004

F. No. A. 12034/1/2004-Admn.IV(LA).—The President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar, Section Officer in the Department of Company Affairs, as Additional Private Secretary in the personal section of the Hon'ble Minister of Law & Justice (Shri H.R. Bharadwaj) w.e.f. 25.05.2004 (F/N). The post of Additional Private Secretary to the Minister carries the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200. However, the pay of Shri Vijay Kumar will be governed in accordance with the relevant instructions of DOPT. The appointment of Shri Vijay Kumar is at the pleasure of and co-terminus with the tenure of Shri H.R. Bharadwaj as Minister of Law & Justice.

V.M. RATHNAM, Under Secy.

The 8th July, 2004

No. A. 12034/2/2004-Admn.IV(LA).—The President is pleased to appoint Shri P.R. Subramaniam, U.D.C. of the Ministry of Information & Broadcasting as 1st P.A. in the personal section of the Hon'ble Minister of State for Law & Justice (Shri K. Venkatapathy) in the scale of pay of Rs. 6,500-10,500 w.e.f. 04.06.2004. However, the pay of Shri Subramaniam will be governed in accordance with the relevant instructions of DOPT. The appointment of Shri P.R. Subramaniam is at the pleasure of, and co-terminus with the tenure of Shri K. Venkatapathy as Minister of State for Law & Justice.

V.M. RATHNAM, Under Secy.

New Delhi, the 13th July 2004

No. 32013/1/98-Admn.IV. (LA).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 17.03.2004 the Competent Authority is pleased to extend appointments of undermentioned Private Secretaries as Principal Private Secretary on ad-hoc basis against regular vacancies in Department of Legal Affairs & Legislative Department of the Ministry of Law & Justice for a period upto 31.12.2004 or till a regular incumbents become available, whichever is earlier.

Sl. No.	Name & Department
	S/Shri
1.	M.L. Chandwani, Legislative Department
2.	A.C. Sharma, Legal Affairs
3.	Jameet Singh, Law Commission, Legal Affairs
4.	R.K. Sharma, Law Commission, Legal Affairs

2. The above said ad-hoc appointment will not bestow on them any claim for regular promotion to the grade of PPS nor will the service rendered by them on ad-hoc basis will count for the purpose of seniority in the grade or for their promotion to the next higher grade.

YASHWANT SINGH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110 011, the 4th July 2004

No. K. 11019/5/2004-US.II.—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Cyriac Joseph, Judge of the Kerala High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from July 05, 2004 during the absence of Shri Justice Nauvdiip Kumar Sodhi, Chief Justice of the Kerala High Court.

Dr. P. K. SETH, Joint. Secy.

The 7th July, 2004

No. K. 13025/3/2003-US.II(Vol. II).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Nityananda Prusty, to be an Additional Judge of the Orissa High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

Dr. P. K. SETH, Joint. Secy.

The 12th July 2004

No. K. 13031/1/2003-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Amareshwar Sahay, Additional Judge of the Jharkhand High Court, to be a Judge of the Jharkhand High Court, with effect from the date he assumes charge of his office.

Dr. P. K. SETH, Joint. Secy.

The 14th July, 2004

No. K. 13032/3/2002-US.II(Vol.II).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Brahma Singh Verma to be an Additional Judge of the Uttaranchal High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

Dr. P. K. SETH, Joint. Secy.

No.K.13016/4/2003-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Anil Kumar,

(ii) Kumari Gita Mittal and (iii) Shri Shripathi Ravindra Bhat, to be additional Judges of the Delhi High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective office.

Dr. P. K. SETH, Joint. Secy.

The 16th July 2004

No.K.13021/3/2002-US.I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Justice Kothandram Naidu Bhakthavatsala and (2) Shri Justice Shashidhar Bhimarao Majage, Additional Judges of the Karnataka High Court, to be Judges of the Karnataka High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective office.

Dr. P. K. SETH, Joint. Secy.

No.K.13032/2/2004-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Vikas Shridhar Sirpurkar, Judge of the Madras High Court, to be the Chief Justice of the Uttaranchal High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

Dr. P. K. SETH, Joint. Secy.

No.K. 13023/6/2004-US.II.—Shri Justice Narain Singh "Azad", resigned from the office of the Judge, Madhya Pradesh High Court, in pursuance of proviso (a) of clause (1) of article 217 of the Constitution of India, with effect from the afternoon of June 15, 2004.

Dr. P. K. SETH, Joint. Secy.

The 21st July 2004

No.K. 11019/5/2004-US.II.—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Nagendra Rai, seniormost Judge of the Patna High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from July 22, 2004.

Dr. P. K. SETH, Joint. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 26th July 2004

No. I-18011/17/2003-IPS.IV.—In exercise of powers conferred by Rule 3-A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Dinesh Pratap Singh, IPS (PB:2000), in Indian Police Service with effect from 04.09.2002.

J.B. KAUSHISH, Desk Officer

No. I-18011/6/2004-IPS.IV.—In exercise of powers conferred by Rule 3-A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Smt. Meenu Choudhary, IPS (AGMU : 2000), in Indian Police Service with effect from 04.09.2002.

J.B. KAUSHISH, Desk Officer

The 27th July 2004

No. I-18011/7/2004-IPS.IV.—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadres of Bihar and Madhya Pradesh with effect from the dates mentioned against their names:—

S.No.	Name of the Officer	Date of confirmation
	S/Shri	
1.	Amit Lodha, IPS (BH : 1998)	07.09.2000
2.	Amrit Raj, IPS (BH : 1998)	07.09.2000
3.	Ratan Sanjay Katiyar, IPS (BH : 1998)	28.12.2000
4.	Malothu Ramulu, IPS (BH : 1998)	25.02.2001
5.	Smt. Kassey Suhita Anupam, IPS (BH : 1998)	10.05.2002
6.	Smt. Deepika Suri, IPS (MP : 1999)	10.01.2002
7.	Ganesh Kumar, IPS (BH : 2000)	27.12.2002

J.B. KAUSHISH, Desk Officer

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

RAJBHASHA VIBHAG

New Delhi, the 21st July 2004

No. 14034/33/2003-OL (Trg.).—The President, on the recommendation of the Union Public Service Commission, is pleased to appoint Shri Prithvi Singh, Assistant Director (Language), Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs as Deputy Director (Hindi Teaching Scheme), in the Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same office, on promotion, with effect from the afternoon of 6th July, 2004.

S. RAMANAN, Under Secy.

No. 14034/33/2003-OL (Trg.).—The President, on the recommendation of the Union Public Service Commission, is pleased to appoint Smt. Pushpa N. Surti, Assistant Director (Language), Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs as Deputy Director (Hindi Teaching Scheme), in the Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200 in the same office, on promotion, with effect from the forenoon of 7th July, 2004.

S. RAMANAN, Under Secy.

The 26th July 2004

No. 12013/3/2002-OL (Impl.-I).—The President is pleased to appoint Shri Kumar Pal Sharma as Research Officer (implementation) in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs on absorption basis with effect from 8.6.2004 (F.N.).

SMT. SAROJ JAISIA, Under Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi, the 16th July 2004

No. 2/4/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Lakshmi Chand, IAS (UP : 69) Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion as Secretary, Ministry of Development of North Eastern Region w.e.f. the forenoon of 1st July, 2004.

SAJAL MITTRA, Director (Admn.)

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. AND PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 20th July 2004

No. A. 12026/3/2003-Ad.I.—The President is pleased to appoint Smt. Anjali Anand, Assistant of Department of Personnel and Training to the post of Research Officer Gr. 'B' in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in the same Department on deputation basis w.e.f. 6.7.2004 for a period of three years.

V.K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A. 12026/3/2003-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Zuver Ahmed Khan, Assistant of Ministry of Civil Aviation to the post of Research Officer Gr. 'B' in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in this Department on deputation basis w.e.f. 6.7.2004 for a period of three years.

V.K. VELUKUTTY, Under Secy.

The 21st July 2004

CORRIGENDUM

No. A.32014/2/2004-Ad.I.—In this Department's Notification of even number dated the 12th May, 2004, the

names at S. No. 11, 12 and 21 have been wrongly spelt out and they may be rectified as under:—

FOR

READ

"11. Shri Jagdish Raj Ahuja" "11. Shri Jagdish Rai Ahuja"
12 Smt. Promila Unmat 12. Smt. Promila Ummat
21. Smt. Bimla Chaddha" 21. Smt. Bimla Chadha"

2. All other entries shall remain unchanged.

V.K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 21st July 2004

No. 23012/04/2004-AIS.III.—Thiru N. Dhananjayan, IAS (TN : 90) appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Service Examination 1989 and borne on the Cadre of Tamil Nadu is permitted to change his name from Thiru N. Dhananjayan to Thiru N. Danamjeyan and accordingly be recognized as Thiru N. Danamjeyan for all official purposes.

G.C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 22nd July 2004

No. 14012/3/2004-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by Rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service born on the State Cadre of Tamil Nadu with effect from the dates shown against them:—

Sl. No.	Name	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri G. Prakash	2000	04.09.2002
2.	Shri Anil Meshram	2000	04.09.2002
3.	Shri Ranvir Prasad	2000	16.09.2002
4.	Shri Santosh K. Misra	2000	04.09.2002

SANGEETA SINGH, Director (Services)

New Delhi, the 22nd July 2004

Pt. F.No. 13017/38/2000-AIS(I).—In exercise of the power conferred by Rule 6 (1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Jharkhand, the Central Govt. hereby regularise the period of over stayal of Shri Mithilesh Kumar, IAS (JH : Non : SCS : 74) on inter cadre deputation from Jharkhand to Bihar from 14.11.2002 to 31.12.2002.

K.K. SHARMA, Desh Officer

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 17th June 2004

No. 02/PF/2004.—The President is pleased to appoint Shri K. Sasidharan Nair as Assistant Private Secretary to

the Minister of State for External Affairs (Shri E. Ahamed) with effect from May 24, 2004. The appointment of Shri K. Sasidharan Nair as Assistant Private Secretary to the Minister of State for External Affairs (Shri E. Ahamed) will be at the discretion of and co-terminus with the Minister of State for External Affairs (Shri E. Ahamed).

2. Shri K. Sasidharan Nair joined duty as Assistant Private Secretary in the Office of the Minister of State for External Affairs (Shri E. Ahamed) in the forenoon of May 24, 2004.

S.C. CHAWLA, Administrative Officer (PF)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 7th July 2004

No. /2004. (F. No. A-19013/4/2004-Ad.IA).—In pursuance to Cadre Administration Section, Department of Expenditure's O.M. No. A/32022/5/2003 (I) dated 18th June, 2004, Shri M.M. Ahuja is taken on the strength of Department of Revenue with effect from 14.6.2004 (F.N.) as Principal Private Secretary in the pay scale of Rs. 10,000-325-15200/- and until further orders.

R.K. MALHOTRA, Under Secy.

New Delhi, the 13th July 2004

No. 49: (F. No. 50/29/2004-Ad.I).—In continuation of this Department's notifications number 87 dated 05.12.2001, 29 dated 6.3.2002, 60 dated 29.8.2002, 83 dated 12.11.2002, 85 dated 18.11.2002, 86 dated 18.11.2002, 82 dated 12.9.2003, 105 dated 11.12.2003 and 24 dated 30.04.2004 and in pursuance of Department of Personnel and Training's O. M. No. 4/2/2004-CS.II dated 25.03.2004, the President of India is pleased to extend the adhoc appointment of the following 4 Assistants of the Finance cadre of CSS as Section Officer in the Department of Revenue w.e.f. 01.04.2004 and until further orders:—

1. Shri A.K. Sharma
2. Shri R.P. Tiwari
3. Shri Aibaran Singh
4. Shri M.L. Lamba

2. The adhoc promotion of afforesaid officers will not bestow on them any claim for regular promotion and the service rendered by them on short-term basis will not count for regular promotion to the next higher grade.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 50: (F. No. 50/29/2004-Ad.I).—In continuation of this Department's notifications number 87 dated 05.12.2001, 29 dated 6.3.2002, 60 dated 29.8.2002, 83 dated 12.11.2002, 85 dated 18.11.2002, 86 dated 18.11.2002, 82 dated

12.9.2003, 105 dated 11.12.2003 and 24 dated 30.04.2004 and in pursuance of Department of Personnel and Training's O. M. No. 4/2/2004-CS.II dated 25.03.2004, the President of India is pleased to extend the adhoc appointment of Shri Manoj Kumar Nirbheek, a regular Assistants of the Finance cadre of CSS as Section Officer in the Department of Revenue w.e.f. 01.04.2004 to 13.06.2004 (AN).

2. The adhoc promotion of Shri Manoj Kumar Nirbheek will not bestow on him any claim for regular promotion and the service rendered by him on short-term basis will not count for regular promotion to the next higher grade.

PREETI PANT, Under Secy.

The 16th July 2004

No. 51 : (F. No. A.19014/7/2003-Ad.I).—In continuation of this Department's Notification No. 107/2004 dated 30.12.2003 and in pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2004-CS-II dated 25.03.2004 and Department of Expenditure's O.M. No. 11017/1/2004-CAS, dated 07.07.2004, the President of India is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri Krishan Gopal, regular Assistant of the Finance Cadre of the Central Secretariat Service (CSS) as Section Officer of the CSS on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in the Department of Revenue w.e.f. 23.06.2004 (FN) and until further orders.

2. The above ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer Grade of Central Secretariat Service.

PREETI PANT, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
(CURRENCY & COINAGE)

New Delhi, the 21st July 2004

No. 4 (18)/96-Cy.I (SPM).—The President is pleased to appoint Shri P.M.S. Prasada Rao, Controller (Stores & Inventory) of M/s. Bharat Gold Mines Limited to the post of Manager (Material) in Security Paper Mill, Hoshangabad in the scale of Rs. 3700—5000 (pre-revised) on transfer on deputation (including Short-term Contract) basis w.e.f. 04.07.2001 (forenoon) to 12.12.2002 (afternoon) (date of termination).

P.K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 19th July 2004

No. 23/2004 (A-19011/14/2004-E. I).—The President is pleased to appoint Smt. Asha Swarup, IAS (HP : 73) as Additional Secretary & Financial Adviser in the Ministry

of Commerce & Industry, Department of Commerce w.e.f. 19th July, 2004 (FN) until further orders.

S. K. TULI, Dy. Secy.

(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER)

New Delhi, the 22nd July 2004

No. A-22012/2/2003-Ec.Ad. (Admn. I).—The President is pleased to appoint Shri Kailash G. Sharma, a Junior Time Scale (JTS) officer of Indian Statistical Service as Assistant Director (pay scale of Rs. 8000—13500) in the Office of the Economic Adviser, with effect from forenoon of 21st July, 2004 until further order.

G.S. NEGI, Addl. Economic Adviser

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 2nd July 2004

No. 2 (10)/2001-Estt.—On his inclusion in the Select List of the Section Officer's grade of the CSS (seniority) for the year 2001 and on being nominated for appointment as Section Officer in the CSS cadre of the Ministry of Steel, the President is pleased to appoint Shri Sandeep Kumar, Assistant in the CSS cadre of the Union Public Service Commission and working as Section Officer on an 'ad hoc' basis in the same cadre, as Section Officer in the CSS cadre of the Ministry of Steel w.e.f. 1.7.2004 (FN) and until further orders.

BABOO RAM, Under Secy.

No. 2(10)/2001-Estt.—On his inclusion in the Select List of the Section Officer's grade of the CSS (seniority) for the year 2001 and on being nominated for appointment as Section Officer in the CSS Cadre of the Ministry of Steel, the President is pleased to appoint Shri D.S. Yadav, Assistant in the CSS cadre of the Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation and working as Section Officer on an 'ad hoc' basis in the same cadre, as Section Officer in the CSS cadre of the Ministry of Steel w.e.f. 1.7.2004 (FN) and until further orders.

BABOO RAM, Under Secy.

The 5th July 2004

No. 2(4)/2003-Estt.—In continuation of Ministry of Steel's Notification of even number dated 12th January, 2004, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri B.S. Kaushik as Senior Principal Private Secretary (CSSS) in the Ministry of Steel for a further period of six months w.e.f. 1.7.2004 to 31.12.2004 or till the vacancy is filled on a regular basis or until further orders whichever event is the earliest.

BABOO RAM, Under Secy.

New Delhi, the 7th July 2004

No. 2(8)/2004-Estt.—On her transfer to as Adviser, O/o DC (SSI), Dr. S. Rohini, IES, Economic Adviser to Ministry of Steel is relieved of her duties w.e.f. 7.7.2004. Her services are hereby placed at the disposal of the Office of DC(SSI) from the same date.

ANITA PRAVEEN, Director

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

(DIRECTORATE OF VANASPATI, VEGETABLE OILS AND FATS)

New Delhi-110003, the 19th July 2004

No. A-20011/1/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri B.S. Khatavkar, Chemist in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats as Development Officer, Group 'B' (Gazetted) Officer, in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 w.e.f. 14.7.2004 on regular basis.

P.K. SARDAR, Director

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 1st July 2004

No. A-32019/1/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Vimal Kumar Varun, Scientist 'D' to the post of Scientist 'E' on his in-situ promotion under the modified Flexible Complementing Scheme (FCS) in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 in the Department of Scientific and Industrial Research, with effect from 01.07.2004.

GURMIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110 003, the 22nd April 2004

No. 12026/1/2002-IFS-I.—The President is pleased to appoint Shri B.R. Sharma, an officer belonging to the 1984 batch of West Bengal cadre of the Indian Forest Service, to the post of Conservator of Forests (Central) in the Ministry of Environment & Forests, Northern Regional Office, Chandigarh with effect from the forenoon of 12th March, 2004 and until further orders.

M.L. PARASHAR, Under Secy.

The 17th June 2004

No. A-12026/7/2002-IFS.I(Part).—The President is pleased to appoint Shri Raj Kumar Bajpai, an officer

belonging to the 1994 batch of Jharkhand cadre of the Indian Forest Service, to the post of Deputy Director in the Forest Survey of India, Dehradun on deputation at DCF level with effect from the forenoon of 21st May, 2004 for a period of four years or until further orders.

M.L. PARASHAR, Under Secy.

The 30th June, 2004

No. A. 19011/1/2004-IFS-I.—Shri S.S. Patnaik, an officer belonging to the 1969 batch of the Joint AGMUT cadre of the Indian Forest Service presently working as Additional Director General of Forests in the Ministry of Environment and Forests will retire from Government service on the afternoon of 30th June, 2004 on attaining the age of superannuation.

M.L. PARASHAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 2nd December 2002

No. A. 38011/3/2004-CHS.I.—Consequent upon his retirement on attaining the age of superannuation Dr. N.J. Kar, of Regularised Cadre of Central Health Service holding the post of CMO(NFSG) under Central Government Health Scheme, Delhi relinquished the Charge of the post on the 30.6.2002 (AN).

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 16th July, 2004

No. A. 38011/1/2004-CHS.I.—Consequent upon his retirement on attaining the age of superannuation Dr. A.C. Mishra of the Central Health Service, holding the post of Senior Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi relinquished the Charge of the post on 31.1.2004(AN).

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110011, the 21st July 2004

No. A. 12025/5/2003-CHS.IV.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sandeep Kumar to the post of Specialist Grade-II (Paediatrics) of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation and to post him in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- at Central Govt. Health Scheme, Lucknow with effect from the forenoon of the 10th December, 2003 and until further orders.

Y.K. TALWAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-
OPERATION)

New Delhi the 20th July 2004

File No A-19012/8/2004-EA.—The President is pleased to appoint Shri M.C. Arya, an Indian Economic Service Officer to the post of Research Officer, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Co-operation, in the pay scale of Rs. 8,000/- 13,500/- with effect from the forenoon of 14th May, 2004.

RAJ KUMAR, Under Secy.

The 27th July, 2004

No. 12026/5/2001-E.I. E.V.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri Dharam Pal, a regular Assistant Commissioner (INM) in the Department of Agriculture & Cooperation, in the post of Deputy Commissioner (INM) for a further period of six months with effect from 15.05.2004 or until further orders, whichever is earlier.

2. The above ad-hoc appointment will not bestow on him any claim for regular appointment.

K.D. UPRETI, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi-100 001, the 21st July 2004

No. A-12011/3/2004-PR.—The President is pleased to appoint Smt. Sudha Pillai, IAS (KL : 72), as Additional Secretary in the newly created Ministry of Panchayati Raj with effect from the afternoon of 20.07.2004.

H.C. BAVEJA, Under Secy.

MINISTRY OF YA & SPORTS

New Delhi, the 22nd July 2004

No. F22-20/98-Desk(SAI).—Consequent upon submission of his resignation from the post of President, All India Council of Sports, New Delhi, the competent authority is pleased to accept the resignation of Prof. Vijay Kumar Malhotra with immediate effect.

JARNAIL SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)
(NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

New Delhi-110003, the 20th July 2004

No. A-39013/1/1996-Admn.I.—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the

resignation of Shri Biral Doley, Emp-Code-, 2719, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade 'SB', NIC-Arunachal Pradesh State Unit, Itanagar, with effect from the afternoon of 26th April 1996 and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Joint Director (Admn.)

No. A-39013/1/1994-Admn.-I.—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Shri G.V. Prasad, Emp-Code-, 3079, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade 'SB', NIC-Pune, with effect from the afternoon of 20th June 1994 and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Joint Director (Admn.)

New Delhi-110 003, the 20th July 2004

No. 4700/NIC/2004-Adm.II.—President is pleased to accept the resignation of Sh. Ashwani K.S. Dayal (Emp. Code No. 4700) from the post of Scientist-B with effect from the afternoon of 20th July, 2004 and he is relieved of his duties from the same day.

P.S. PILLAI, Dy. Director (Adm.II)

MINISTRY OF RAILWAYS

RAILWAY BOARD

New Delhi, the 20th July 2004

No. 95/E(GR)/I/4/I.—The word provisional indicated against the names of Shri Senthil Kumar R. mentioned in Railway Board's Notification No. 95/E(GR)/I/4/I dated 13.08.1998 may be deleted.

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)
Railway Board

The 22nd July, 2004

No. 2002/E(GR)/I/10/I.—The word provisional indicated against the names of the following officers notified vide Railway Board's Notification No. 2002/E(GR)/I/10/I dated 16.01.2004 may be deleted.

S/Shri

1. Asawa Manoj Rajgopal
2. Shreshail Malge
3. Ravindra Pratap Singh
4. Lavidiya Jeevan Lal.

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)
Railway Board

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

New Delhi, the 29th June 2004

No. A-12023/2/04-E-I.—The President is pleased to appoint Shri Kapil Mohan, IAS (KN:90) as Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Road Transport & Highways (Shri K.H. Muniyappa) on co-terminus basis w.e.f. 21.6.2004 (F.N.) for a period of 5 years or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs at the earliest.

2. The appointment of Shri Kapil Mohan, IAS (KN : 90) as PS to Minister of State for Road Transport & Highways will be at the level of Deputy Secretary up to 30.06.2004 and at the level of Director from 1.7.2004 till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs at the earliest.

DR. N.C. KAUSHIK, Under Secy.

The 6th July 2004

No. A-12026/2/2003-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri C.G.K. Pillai, Private Secretary of CSSS Cadre of Ministry of Home Affairs as Principle Private Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Road Transport & Highways in the scale of Rs. 10000-325-15200/- with effect from 17th June, 2004 (Forenoon) for a period upto 30th June, 2004 or till the post is filled upon on regular basis or till further orders whichever is earlier.

DR. N.C. KAUSHIK, Under Secy.

The 12th July, 2004

No. A-12022/1/2004-E-I.—The President is pleased to appoint Shri Dhanendra Kumar IAS (HY:68) as Secretary, Ministry of Road Transport & Highways w.e.f. 1.7.2004 (F.N.).

DR. N.C. KAUSHIK, Under Secy.

ESTABLISHMENT I SECTION

The 20th July, 2004

No. A-11019/1/2003-E.I.—The President is pleased to appoint following Statistical Investigator Grade-II in the Ministry of Road Transport & Highways in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 w.e.f. the dates mentioned against their names:

S.No.	Name	Date of appointment
1.	Shri Om Prakash Bhardwaj	1.7.2004 (FN)
2.	Shri Sukhbir Tyagi	1.7.2004 (FN)

DR. N.C. KAUSHIK, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 15th July 2004

No. A-12025/3/98-Estt.—The President is pleased to extend the deputation period for the fifth year i.e. second year in excess of the normal period of deputation of 3 years of Shri P. Ramachandran, Draftsman Grade-I, Andaman Lakshadweep Harbour Works, on as Assistant Director (Civil) in the Ministry of Shipping in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 w.e.f. 17.7.2004 to 16.7.2005 or until further orders whichever is earlier. Shri P. Ramachandran, Assistant Director (Civil) will not be entitled to draw any Deputation (Duty) Allowance during the above period.

2. The terms and conditions would be governed as per Department of Personnel and Training's O.M. No. 2/29/97-Estt. (Pay-II) dated 5.1.1994.

S.K. SHAHI, Under Secy.

The 19th July 2004

No. A-20011/7/2001-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Hari Niwas and Shri D.K. Mohanta, permanent Assistants of the CSS, as Section Officers, on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500, in the Ministry of Shipping w.e.f. 25.03.2004 until further orders.

S.K. SHAHI, Under Secy.

(SHIPPING WING)

New Delhi, the 12th July 2004

No. LH-21012/1/2004-SL—The President is pleased to promote Shri P.P. Sinha, Deputy Director (Regional) to the post of Director (Electronics) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from the forenoon of 23rd June, 2004, until further orders.

V.P. RANA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 20th July 2004

No. 18/2004.F.No. A-38012/1/2004 Adm. I.—Shri V. Muthuvelayutham, Deputy Director, an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th June, 2004 on attaining the age of superannuation.

V.C. KAJLA, Under Secy.

No. 19/2004. F.No. A-38012/1/2004-Adm.I.—Shri K.K. Bhattacharyya-II, Deputy Director, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government

of India in the afternoon of 30th June, 2004 on attaining the age of superannuation.

V.C. KAJLA, Under Secy.

No. 20/2004. F.No. A-38012/1/2004 Adm.I.—Shri S. Dasari, Chief Engineer an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th June, 2004 on attaining the age of superannuation.

V.C. KAJLA, Under Secy.

No. 21/2004. F.No. A-38012/1/2004-Adm.I.—Shri M.S. Manoj, Director, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th June, 2004 on attaining the age of superannuation.

V.C. KAJLA, Under Secy.

MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

New Delhi-110003, the 15th July 2004

No. 1/4/04-Admn.I.—The president is pleased to appoint Shri Asheesh Sharma, IAS (MH:97), as Private Secretary to the Minister of State (NES) (IC), Shri Vilas Muttemwar w.e.f. 14.07.2004 (F/N) at the level of Under Secretary till he ceases to function as private Secretary to the present Minister of State (NES) (IC) or until further orders, whichever event occurs the earlier.

J. MAJUMDAR, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 21st July 2004

NO. 17/7/2004-BM/723—The Central Government hereby appoints Shri Monohar Lal, Personal Assistant in the Supreme Court to the post of Principal Private Secretary in the Krishna Water Disputes Tribunal (KWDT), New Delhi in the pay scale of Rs. 10000-15200/- on deputation basis for a period of one year or till the life of the Tribunal whichever is earlier w.e.f. the forenoon of 01.07.2004. His terms and conditions of appointment will be regulated in accordance with Deptt. of Personnel & Training O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay II) dated 05.01.94 as amended from time to time.

B.P. PANDEY, Dy. Commissioner (BM)

The 21st July 2004

No. 1/4/2001-BM—The Central Government hereby appoints Shri P. Sivaraman, Personal Secretary in the Ministry of Defence to the post of Principal Private Secretary in the Cauvery Water Disputes Tribunal, New Delhi in the pay scale

of Rs. 10000-325-15200/- on deputation basis for a period of one year or till the life of the Tribunal whichever is earlier w.e.f. forenoon of 25.06.2004. His terms and conditions of appointment will be regulated in accordance with Deptt. of Personnel & Training O.M. No. 2/29/91-Estt. (PayII) dated 05.01.94 as amended from time to time.

B.P. PANDEY, Dy. Commissioner (BM)

New Delhi, the 23rd July 2004

No. 14/2004 F.No. 25/2/(8)/2003-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2002, the President is pleased to appoint Shri Yoki Vijay to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the scale of Rs. 8,000-13,500/- in the Central Water Commission with effect from 01.07.2004 F.N.

2. Shri Yoki Vijay will be on probation for a period of two years with effect from date of joining, which may be extended, if considered necessary.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

No. 13/2004 F.No. 25/2/(21)/2003-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2002, the President is pleased to appoint Shri Narendra Kumar Singh to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the scale of Rs. 8,000-13,500/- in the Central Water Commission with effect from 30.06.2004 F.N.

2. Shri Narendra Kumar Singh will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND
POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, th 18th June 2004

No. A-12023/2/2003-Sty.—The President is pleased to appoint Shri Har Gopal, Assistant Controller of Stationery to officiate as Deputy controller of Stationery (Administration) in the Government of India Stationery Office, Kolkata with effect from 15.06.2004 and Until further orders.

S.P. GUPTA, Dy. Secy.